

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मार्च 7—मार्च 13, 2004, शनिवार/फाल्गुन 17—फाल्गुन 23, 1925
No. 9] NEW DELHI, MARCH 7—MARCH 13, 2004, SATURDAY/PHALGUNA 17—PHALGUNA 23, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रख जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएँ
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2004

आ. अ. 20.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से एतद्वारा डा० के० के० चक्रवर्ती, आई०ए०एस० के स्थान पर श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय, आई०ए०एस० (सी०एच० 69) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय, छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ के पद पर कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जावेगा।

[सं० 154/सी० जी० एच०/2004—का० प्रशासन]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक (प्रशासन)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 19th February, 2004

O.N. 20.—In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Chattisgarh hereby nominates Shri Ashok Kumar Vijayavargiya, IAS (CH-69), as the Chief Electoral Officer for the State of Chattisgarh with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Dr. K.K. Chakravarty, IAS.

2. Shri Ashok Kumar Vijayavargiya shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Chattisgarh, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Ashok Kumar Vijayavargiya, while functioning as the Chief Electoral Officer, Chattisgarh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Chattisgarh except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/CGH/2004-P. Admn.]

By Order,

ANAND KUMAR, Director (Admn.)

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2004

आ. अ. 21.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उड़ीसा सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री एल० किंडो आई०ए०एस० के स्थान पर श्री आर० बालकृष्णन, आई०ए०एस० (ओ०आर०:84) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए, उड़ीसा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री आर० बालकृष्णन, उड़ीसा सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री आर० बालकृष्णन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उड़ीसा के पद पर कार्य करते हुए उड़ीसा सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं० 154/ओ०आर०/2004-का० प्रशासन]

आदेश से,

आनंद कुमार, निदेशक (प्रशासन)

New Delhi, the 4th March, 2004

O.N. 21.—In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Orissa hereby nominates Shri R. Balakrishnan, IAS (OR:84), as the Chief Electoral Officer for the State of Orissa with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Shri L. Kindo, IAS.

2. Shri R. Balakrishnan, shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Orissa, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri R. Balakrishnan, while functioning as the Chief Electoral Officer, Orissa shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Orissa except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/OR/2004-P. Admn.]

By Order,

ANAND KUMAR, Director (Admn.)

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2004

आ. अ. 22.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग बिहार सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री एन० एस० माधवन, आई०ए०एस० के स्थान पर श्री के० सी० साहा, आई०ए०एस० (बी०एच०:75) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए, बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री के० सी० साहा, बिहार सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री के० सी० साहा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के पद पर कार्य करते हुए बिहार सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं० 154/बी० आर०/2004-का० प्रशासन]

आदेश से,

आनंद कुमार, निदेशक (प्रशासन)

New Delhi, the 5th March, 2004

O.N. 22.—In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 13A of the representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Bihar hereby nominates Shri K.C. Saha, IAS (BH: 75) as the Chief Electoral Officer for the State of Bihar with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri N.S. Madhavan, IAS.

2. Shri K.C. Saha, shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Bihar, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri K.C. Saha, while functioning as the Chief Electoral Officer, Bihar shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Bihar except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/BR/2004-P. Admn.]

By Order,

ANAND KUMAR, Director (Admn.)

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2004

आ. अ. 23.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अर्जी सं. 2000 का 07 में, मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 10 फरवरी, 2004 के निर्णय/आदेश/रिपोर्ट को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

(निर्णय/आदेश इस अधिसूचना के अंग्रेजी भाग में छपा है।)

[सं० 82/त. ना.-लो.स./07/2000]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

New Delhi, the 9th March, 2004

O.N. 23.—In pursuance of Section 106 of the representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes the judgment/order of the High Court of Madras dated 10th February, 2004 in Election Petition No. 07 of 2000.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS

(Ordinary Original Civil Jurisdiction)

Tuesday, the 10th day of February 2004

THE HON'BLE MR. JUSTICE M. CHOCKALINGAM

Election Petition No. 7 of 2000

In the matter of an Election Petition
under Section 80 read with Section
100 (1) (b), 100 (1) (d) & 101 and 123
of the representation of the People
Act, 1951

and

In the matter of the 13th General
Election to the House of the People
from No. 26 Karur Parliamentary
constituency

K. C. Palanisamy

Vs.

....Petitioner

1. M. Chinnasamy
2. K. Natrayan
3. K. Sathiyamoorthy
4. M. Chinnasamy
5. C. Srinivasan
6. S. Senthil Raja
7. R.M. Dhayalan
8. S. Balakrishnan
9. T. Mathivanan
10. P. Murugesan
11. K. Arjunamoorthy
12. H. Shahul Hameed
13. K. Subramanian
14. Paramathy Shanmugam
15. M. Kanagaraj
16. M. Palaniappan
17. The Returning Officer
26, Karur Parliamentary Constituency/
District Collector,
Karur 639001

... Respondents

(Respondents 11 to 16 have been deleted from
the array of respondents as per order of this
Hon'ble Court dt. 23-1-2002 in O. A. 27/2002)

(R 17 has been deleted from the array of respondents
as per the order dt. 23-1-2002 in O.A. 28/2002)

Election Petition No. 7 of 2000 praying that this court be pleased to

(i) order scrutiny and recounting of the ballot papers in respect of No. 26, Karur Parliamentary Constituency.

(ii) issue a declaration that the election of the first respondent as the successful returned candidate form No.26 Karur Parliamentary Constituency is void and illegal and to set aside the same;

(iii) issue a declaration that the petitioner has been duly elected as a successful returned candidate in No. 26 Karur Parliamentary Constituency.

The above Election Petition coming on this day before this Court for hearing in the presence of Mr. Satish Parasaran, Counsel for the Petitioner and Mr. N. Srinivasan, Counsel for the first Respondent and respondents 2 to 16 herein not appearing in person or by advocate and upon reading the petition filed herein and the Counsel for the petitioner having made an endorsement to the effect in view of the dissolution of the Lok Sabha, the present petition has become infructuous (since the case of corrupt practice has already been rejected by this Hon'ble Court) on instructions from the petitioner, it is humbly submitted that the petition may be disposed of as infructuous, this Court made the following order:—

The Learned Counsel appearing for the petitioner makes the following endorsement :

“In view of dissolution of the Lok Sabha the present petition has become infructuous (since the case of corrupt practice has already been rejected by this Hon'ble Court). On instructions from the petitioner, it is humbly submitted that the petition may be disposed of as infructuous.”

2. The said endorsement is recorded. In view of the same, this election petition is dismissed as one infructuous, leaving the parties to bear their costs.

3. The District Collector, Karur, is directed to take back the entire ballot papers, lying in this Court pursuant to the earlier order dated 7-11-2002, immediately.

Witness the Hon'ble Thiru BOLLAMPALLY SUBHASHAN REDDY, Chief Justice at Madras aforesaid, this the 10th day of February 2004.

Sd/-

V.N. Sundar, Assistant Registrar Original Side-II.

Dated at Madras this 17th day of February 2004

Court Officer (O.S.)

[No. 82/TN-HP/07/2000]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

9602/1/04